

GOEL

SHRI BAJRANG ALLIANCE LIMITED

(Formerly known as Shri Bajrang Alloys Limited)

Regd & Works Office : 521/C, Urla Industrial Complex, Urla, Raipur 493-221 (C.G.), India

Phone : +91-771-4288000, Fax : +91-771-4288001

E-Mail : sales.sbal@goeltmt.com, Website : www.sbal.co.in

CIN No. : L27103CT1990PLC005964



DNV

ISO 9001:2015

Dated: 13.11.2024

To,
**The Corporate Relation Department,
Bombay Stock Exchange Limited.
1st Floor, Rotunda Building,
Dalal Street, MUMBAI – 400 001**

Ref: BSE Scrip Code- 526981

Dear Sir/Madam,


Sub: Publication of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half-Year ended 30th September, 2024.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper publications of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half-Year ended 30th September, 2024, published in the Mint and Chhattisgarh newspaper.

This is for your kind information and dissemination to all the concerned please.

Thanking You,
Yours faithfully,

For Shri Bajrang Alliance Limited


Anshu Dubey

Company Secretary & Compliance Officer



Encl. as above



mint must read



Yuvraj changes investment gear

Mansi Verma
mansiverma@livemint.com
MUMBAI

Like in cricket, Yuvraj Singh has seen setbacks in his investment journey as well. From helping India lift the 2011 World Cup with his all-round consistency, to coming down with a shattering rare germ cell cancer between his lungs, the iconic cricketer has seen it all. Singh didn't know where his cricket career was headed when he was left out of the national team in 2013. "I didn't know where my career was going, so I thought about what I could do with the money I had earned from cricket," Singh told *Mint* in an interview.

From this depth of despondency was born YouWeCan Ventures in 2015, his investment vehicle that has since backed as many as 12 startups. His bet on healthcare marketplace Healthians paid off handsomely, returning 100x, but some others failed spectacularly, too.

Wiser in his entrepreneurial journey, Singh says that he will now take more calculated risks.

On 12 November, Singh embarked on this new approach by launching Twiddles, a healthy snacking brand, where he will serve as co-founder.

Singh will hold a double-digit minority share in the company. Affinity Studios will hold a majority stake in Twiddles, while the rest would be held by investors of Affinity. For Singh, Twiddles is the first company where he is taking an operational role as a founder, and will also drive growth as the face of the brand.



Scan the QR code to read the story.

'Starlink must resolve issues'

Govt open to offering satellite broadband licence to Musk's firm, but awaits security assurances, says Scindia

Aman Gupta & Gulveen Aulakh
NEW DELHI



Scindia's assurance comes amid a spectrum tug-of-war with local telcos. MINT

The government is "happy to give" a licence to Elon Musk's Starlink as long as it complies with the conditions laid down for offering services in India and addresses security concerns, telecom minister Jyoti Raditya Scindia said on Tuesday.

"They (Starlink) are in the process of addressing the (security) concerns, and they have to check all the boxes," Scindia said in a media briefing, noting that the SpaceX-owned satellite broadband provider's application was under process. He did not elaborate on the security concerns the Indian government has raised with Starlink.

Indian telecom firms Reliance Jio Infocomm Ltd and Bharti Airtel Ltd are resisting Starlink's entry into the satellite broadband market, arguing that the US-based company's direct-to-consumer service will compete with their retail services, distorting the level-playing field. Spectrum allocation for satellite broadband is at the

centre of the ongoing tussle between the two sides. Starlink has sought administrative spectrum allocation, and the Indian carriers have cited 'same service, same rules' as the benchmark for spectrum allocation.

The same service, same rules principle refers to telecom operators and any company providing similar servi-

ces as wireless carriers should be regulated in the same way. The Telecom Regulatory Authority of India (Trai) is working on the method of spectrum allocation for satellite broadband services in the country. Indian operators and Starlink have stated their views, including during an open-house discussion by Trai last week.

In response to questions on granting waiver on the bank guarantees of ₹27,000 crore sought by Vodafone Idea, Scindia said that any assistance that has to be given will not be company-specific but will be 'sectoral'.

"The sector received a tremendous amount of boost from government in last 2.5 years. We have four players, which is necessary from a sectoral point of view. The customer must have a choice. All assistance given till now was from a sectoral point of view, except for BSNL."

Scindia said BSNL set up 50,000 radio access network sites for 4G and all 100,000 sites are expected to be up by May or June 2025. Some of the sites would be 5G-enabled by the middle of next year, he added. On relief sought by Vodafone Idea on adjusted gross revenue (AGR) calculations, he said the Supreme Court verdict "stands as is" and if the Centre were to take a decision, it would be notified in time.

On the question of whether telecom service providers will be asked to remove Chinese equipment from legacy networks, Scindia said security cannot be compromised, and the security checks were there for all networks, but replacement of legacy networks will be "evaluated at a later time". "At this point of time, the trusted source system is fully in place," he said.

And whether a stand has been taken on the demand of the telecom operators to get a share of revenues from OTT players, the Union minister said that the government will hear the views of the carriers through the advisory committee mechanism set up by the minister, but noted that the telecom regulator will take a view on the matter. "They've also circulated a consultation paper on the issue," said Scindia.

aman.gupta@htdigital.in
For an extended version of this story go to livemint.com

AI-enabled solutions help Siemens improve margin: Global CTO

Nehal Chaliawala
nehal.chaliawala@livemint.com
MUMBAI

Industrial technology major Siemens will be focusing on delivering artificial intelligence-based solutions to its customers over selling simple components to differentiate itself and enrich its margins, a top executive at the firm said.

The German company, with a revenue of €77.8 billion in fiscal ended September 2023, is also exploring the development of large language model-based interface for industrial

solutions that will help its clients simplify industrial design and automation, according to Peter Koerte, who is the chief technology officer, chief strategy officer and a board member at Siemens AG.

With these solutions, engineers can give natural language inputs for creating a design of the products instead of manually making designs in computer-aided design (CAD) software, Koerte said. "Think about the time saved, and also the many different variations you can create because of the saved time."

Siemens' recent acquisition of industrial simulation and analysis software maker Altair Engineering will form the basis of developing these solutions, he added.

"Today, we are all fascinated by ChatGPT but show me where has it really transformed industry yet. This is where Siemens comes into play. We take those models, and we apply them and put them to productive use, for

energy management, resilient supply chains, whatever it is."

Siemens, which has a listed subsidiary in India, is bullish on the market for the adoption of its AI-enabled smart industrial products. The Indian arm, Siemens Ltd, has seen its profit margin improve 1.6 percentage points year-on-year in the April-June quarter. This has been partly attributed to higher margins from deliver-

ing more AI-enabled solutions than simply selling industrial products and equipment.

"In the last three years, since we introduced Siemens Xcelerator, there has been a margin expansion. And a large part of that margin expansion is because of providing solutions as against providing dumb boxes," Sunil Mathur, managing director and chief executive officer, Siemens Ltd, said.

Siemens Xcelerator is a digital business platform that includes a portfolio of software and services to help industries in their digital transformation.

"Almost every single thing that we sell today is somehow connected," Koerte said. "Our customers say, 'You know what, don't send me just the box. Send me the use case. Tell me how much energy I can save. Show me how much productivity I can get.'"

The smart hardware that the company sells collects large volumes of data. The company then uses software including AI to analyze this data to optimize the output of its customers.

For an extended version of the story go to livemint.com

mint Matters
See Why Industry Leaders Trust Mint

Mint is my go-to business news app every morning and every evening. It's the only app which covers startups, old-age businesses, markets and many other diverse sources of news with equal nuance and depth.

Rohit Kaul
VP - Marketing,
Blume Ventures

Mint App www.livemint.com
Mint Newspaper

Ahmedabad Urban Development Authority
Sardar Vallabhbhai Patel Sankul, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad 380014
Tel : 079-27545051-54, email : auda_urban@yahoo.co.in, Website : www.auda.org.in

TENDER NOTICE

AUDA is inviting online bids for Construction and 5 years of Operation and Maintenance of Storm water drainage system, Sewerage system and Water supply network in Sanand town

Sr No.	Job No.	Name of work
1	APLIP/D/2024-25	Construction and 5 years of Operation and Maintenance of Storm water drainage system, Sewerage system and Water supply network in Sanand town

Date & Time of Publication of Tender on Website 25-11-2024 & 15:00 Hrs (IST)

Pre Bid Meeting 26-12-2024 & 11:00 Hrs (IST)

Last Date/Time of Submission of online Bid 28-01-2025 & 15:00 Hrs (IST)

Opening of Technical Bids 28-01-2025 & 15:30 Hrs (IST)

Bid Document available for download on website. <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>

Details of the above work can be found on the Public Notice Board of the Office / Engineering Branch and AUDA's website www.auda.org.in and <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. For uploading and downloading process one has to register with <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> compulsory. For any difficulties arise during downloading process, please contact help line number: 0120-4001 002, 0120-4001 005 & 0120-6277 787 or email at "support-eproc@nic.in"

No :- AUDA/E-cell/Tender Notice/12875/2024-25
Date :- 11/11/2024

Deputy Director and Technical Advisor
Ahmedabad Urban Development Authority
Ahmedabad

Jalgaon City Municipal Corporation
e-Tender Notice No.565 for 2024-25 (Extension No.02)

Jalgaon City Municipal Corporation, Jalgaon invited e-Tender for the work of Jalgaon City Water Supply Project under Centrally Sponsored Amrut 2.0. Tender schedule of above notice is extended up to **12.12.2024**. Other conditions will remain same as per published notice on <https://mahatenders.gov.in>.

Date: 12.11.2024.

Sd/-
(Dyaneshwar Dhere)
Commissioner and Administrator
Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon

mint CLASSIFIEDS

MATRIMONIALS

BRIDE WANTED

MANGLIK

SEEKS SUITABLE match for my son, April 1991/5'11", athletic, MBA, B.Tech, Working in Dubai. Seeks caring and educated bride from good educated family. Caste no bar. WhatsApp with full profile details at +91 8238020117

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

Auction of Government of India Dated Securities for ₹37,000 crore on November 14, 2024

Government of India (GOI) has announced the sale (issue/re-issue) of three dated securities:

Sr. No.	Nomenclature	Notified amount Nominal (in ₹Crore)	Earmarked for Retail Investors* (in ₹Crore)
1	7.04% GS 2029	14,000	700
2	New GS 2039	13,000	650
3	7.09% GS 2054	10,000	500

GOI will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000 crore against each security mentioned above. The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification'). The stocks will be sold through Reserve Bank of India Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001, as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)-W&M/2018, dated March 27, 2018.

The auction will be conducted using **multiple price method**. The auction will be conducted by RBI, Mumbai Office, Fort, Mumbai on **November 14, 2024 (Thursday)**. The result will be announced on the same day and payment by successful bidders will have to be made on **November 18, 2024 (Monday)**.

For further details, please see RBI press release dated **November 11, 2024** on the RBI website - (www.rbi.org.in).

Attention Retail Investors*
(*PFs, Trusts, RRBs, Cooperative Banks, NBFCs, Corporates, HUFs and Individuals)

Retail investors can participate in the auctions for the amounts earmarked for them on a non-competitive basis through a bank or a primary dealer. Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (<https://rbiretaildirect.org.in>). For more information, detailed list and telephone numbers of primary dealers/bank branches and application forms please visit RBI website (www.rbi.org.in) or FIMMDA website (www.fimmda.org).

Government Stock offers safety, liquidity and attractive returns for long duration.

"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

DEPARTMENT OF POWER, GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Secretary, Power Department
5th Floor, Bidyut Unnayan Bhawan, 3/C LA Block, Sector III, Salt Lake, Kolkata, West Bengal
Email ID: js2powerwb@gmail.com

Department of Power, Government of West Bengal on behalf of the West Bengal State Electricity Distribution Company Limited (WBSEDCL) invites **Application under Request for Qualification (RFQ)** for the details mentioned hereunder:

Sl. No.	Global Tender Notice No. & Description of Items	Last date of submission of Application
(i)	1722-POW-13012(11)/1/2024 Dated: 13th November 2024 Selection of Bidder for Setting up of (1x660) 660 MW Thermal Power Project on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis at land identified within The Durgapur Projects Limited (DPL) existing plant premises in Durgapur, Dist. - Paschim Bardhaman, West Bengal and Power Procurement under Section 63 of Electricity Act Tariff Based Competitive Bidding (TBCB)	30th December 2024 (up to 14:00 Hrs)

Tenders are to be submitted online through the website: <https://www.tcil-electronictender.com>
Further details of the Tender Notice are available from the website: www.wbpower.gov.in / www.wbseedcl.in and the above-mentioned office (Ph. No. 033-23393681)

Date: 13/11/2024
Place: Salt Lake, Kolkata

Pralay Majumdar
Additional Secretary
ICA-120178(3)/2024

SHRI BAJRANG ALLIANCE LIMITED
(Formerly Known as Shri Bajrang Alloys Limited)

“Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2024”
Rs. In Lacs (Except Per share Data)

Sl. No.	Particulars	CONSOLIDATED											
		STANDALONE				CONSOLIDATED				CONSOLIDATED			
		Quarter ended	Half Year ended	Year ended	Quarter ended	Half Year ended	Year ended	Quarter ended	Half Year ended	Year ended	Quarter ended	Half Year ended	Year ended
30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023 31.03.2024 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 31.03.2024 30.09.2024 30.09.2023													
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited													
1.	Total income from Operations	8043.10	13,116.04	6831.08	21159.14	21959.21	57,424.41	8042.56	13106.89	6833.08	21149.46	21961.21	57426.41
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	42.60	48.90	-32.36	91.50	295.40	486.59	748.63	709.97	715.37	1458.60	2030.05	4260.56
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	42.60	48.90	-32.36	91.50	295.40	486.59	748.63	709.97	715.37	1458.60	2030.05	4260.56
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.55	34.75	-61.72	79.30	209.08	312.56	750.58	695.82	735.68	1446.40	1943.28	4086.26
5.	Shares of Profit of Associates	-	-	-	-	-	-	706.58	670.27	796.25	1376.85	1733.38	3773.41
6.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	56.73	84.45	-41.26	141.18	262.39	395.69	762.76	745.52	756.13	1508.28	1996.59	4169.39
7.	Paid-up Equity Share Capital	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
8.	Basic and Diluted Earning per share (of Rs.10/- each) (not annualised)	0.50	0.39	-0.69	0.88	2.32	3.47	8.34	7.73	8.17	16.07	21.59	45.40

Note-1: The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 12.11.2024.
Note-2: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended/ three months 30.09.2024 filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended/ three months on 30.09.2024 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website www.sbal.co.in.

By Order of the Board
Sd/-
(ARCHIT GOEL)
WTD & CFO
DIN:07865623

Date : 12.11.2024
Place : RAIPUR (C.G.)

